

(1) हमारे निवास स्थान या रोज़गार के पते में कोई भी बदलाव होने पर मैं/हम बैंक को लिखित सूचना दूँगे। (2) कृपया इस खाते में से किसी एक या सभी नामों पर आपको प्राप्त हुई सभी राशियाँ जमा करें। (3)मैं/हम पुष्टि करते हैं कि इस राशि का उपयोग सिर्फ़ बताये गये उद्देश्य से ही किया जायेगा और इसका उपयोग अनुमान आधारित उद्देश्य या किसी असामाजिक गतिविधि के लिये नहीं किया जायेगा।

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम भारत के नागरिक हूँ। मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गयी जानकारी सच्ची और सही है। मैं/हम एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को मेरे आवेदन से संबंधित कोई भी पृछताछ करने का अधिकार देते हूँ।मैं/हम एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को किसी भी अन्य वित्तीय कंपनी/बैंक/पंजीकृत क्रेडिट ब्यूरो से उनके साथ मेरे ऋण संबंधी इतिहास के बारे में पृछताछ करने का अधिकार देते हूँ और साथ ही मैं/हम एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को किसी भी अन्य वित्तीय कंपनी/बैंक/पंजीकृत क्रेडिट ब्यूरो को मेरे ऋण संबंधी इतिहास का विवरण देने का भी अधिकार देते हूँ।मैं/हम अपील का कोई भी अधिकार नहीं रखते हैं और स्वीकार करते हैं कि बिना कोई कारण बताये आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।मैं/हम पुष्टि करते हैं कि हमें इस सेवा से जुड़े नियमों व शर्तों की सूची प्राप्त हुई है और हमने उन्हें पढ़, समझ लिया है और हम इन नियमों व शर्तों को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि किसी भी समय एचडीएफसी बैंक लिमिटेड द्वारा इन नियमों व शर्तों में बदलाव किया जा सकता है और मैं/हम संशोधित नियमों व शर्तों के अधीन बाध्य होंगे।एचडीएफसी बैंक को इस आवेदन के साथ जमा की गयी तसवीरें और दस्तावेज़ अपने पास रखने का अधिकार और उन्हें आवेदक को लौटाया नहीं जायेगा। अपूर्ण/गलत आवेदन प्रक्रियाधीन नहीं किया जायेगा और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड किसी भी रूप में इसके कारण हुई देरी या अन्य समस्या के लिये जिम्मेदार नहीं होगा।मैं/हम एचडीएफसी बैंक से ‘‘स्मार्ट ड्राफ्ट’’ कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे/हमें एक ओवरड्राफ्ट देने का आवेदन करते हूँ, मैं हम इस दस्तावेज से संलग्न स्मार्ट ड्राफ्ट के नियमों व शर्तों का पालन करूँगे। किसी भी अन्य ऋणदाता/बैंक की ओर से मेरे/हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। मैं/हम पुष्टि करते हैं कि नीचे दिये गये नियम व शर्तें ओवरड्राफ्ट आवेदन फॉर्म का अभिन्न हिस्सा हैं और आवेदन की स्वीकृति का अर्थ होगा यहाँ दिये गये नियमों व शर्तों को स्वीकार करना।ये नियम व शर्तें वेतन बचत खाते पर लागू नियमों व शर्तों के अलावा अलग से, न कि उनके स्थान पर लागू हैं। ओवरड्राफ्ट आवेदन फॉर्म, नियमों व शर्तों के घटक मुझे/हमें _____ (उस भाषा का नाम जिसमें आवेदक ने हस्ताक्षर किये हैं) में समझा दिये गये हैं और आवेदक ने उन्हें समझ लिया है।

- मैं UIDAI द्वारा जारी किया गया अपना आधार नंबर यहाँ एचडीएफसी बैंक को जमा कर रहा/रही हूँ और खाता खोलने / आधार लिंक करने / मेरे सभी खातों की सीडिंग /निजी तौर पर या गैर-निजी खातों में हस्ताक्षरकर्ता के रूप में एचडीएफसी बैंक के साथ कायम संबंध (मौजूदा, नये और भविष्य के) के उद्देश्य से स्वेच्छा से आधार अधिनियम, 2016 के अनुसार UIDAI के साथ सत्यापन के लिये मेरे आधार नंबर का इस्तेमाल करने की अनुमति देता/देती हूँ
- मैं, आधार नंबर का धारक/धारिका, स्वेच्छा से एचडीएफसी बैंक को मेरा आधार नंबर, नाम और उंगलियों की छाप/आयरिस तथा आधार विवरण प्राप्त करने और आधार अधिनियम, 2016 तथा अन्य सभी लागू कानूनों के अनुसार UIDAI के साथ सत्यापन के लिये उनका इस्तेमाल करने की अनुमति देता/देती हूँ।
- साथ ही मैं एचडीएफसी बैंक को खाता खोलने/मेरे सभी खातों के साथ आधार नंबर को लिंक करने और उसके सत्यापन/ मौजूदा खातों और संबंधों के साथ-साथ भविष्य में निजी और साथ ही गैर-निजी खातों के रूप में एचडीएफसी बैंक के साथ स्थापित संबंधों के लिये मेरे आधार नंबर का इस्तेमाल करने की अनुमति देता/देती हूँ।

नियम व शर्तें

वेतन खाते में ओवरड्राफ्ट सेवा देने पर लागू इन नियमों व शर्तों में, मैं/मेरा/मुझे जैसे शब्द खाता खोलने वाले व्यक्ति के संदर्भ में हैं। आप, आपका या बैंक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के संदर्भ में हैं। अगर संदर्भ की आवश्यकता के अनुसार पुल्लिंग का इस्तेमाल किया गया हो, तो उसमें स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का समावेश होगा और एकवचन में बहुवचन का समावेश होगा और यह उल्टे क्रम में भी लागू होगा।मैं _____ (‘‘नियोक्ता’’) का/क्री कर्मचारीहूँ, जिसने अपने कर्मचारियों के वेतन खाते खोलने और साथ ही इस प्रकार के खाता धारकों को ओवरड्राफ्ट

सेवा देने के लिये एचडीएफसी बैंक (बैंक) के साथ व्यवस्था की है। समय-समय परबैंक द्वारा मेरे वेतन खाते में ओवरड्राफ्ट सेवा या ऐसी अन्य किसी सेवा की राशि दिये जाने पर खाते में मौजूद पूरी ओवरड्राफ्ट की राशि, चाहे खाते के डेबिट से या जारी किये गये चेक से प्राप्त हुई हो, जमा होने वाले वेतन समेत कथित खाते में आने वाली किसी भी राशि के साथ समायोजित की जायेगी।मैं/हम बैंक की मांग पर जमानत के रूप में बैंक के लिये आवश्यक रूप और प्रकार में सुरक्षा प्रदान करूँगे जो राशि और मूल्य के अनुसार बैंक के विचार में दिये गये ओवरड्राफ्ट को चुकाने के लिये पर्याप्त हो।मैं/हम मानते हैं कि नियोक्ता की ओर से दिया जाने वाला मासिक पारिश्रमिक आपके साथ खोले गये मेरे वेतन खाते में या तो मेरे या फिर मेरे साथ संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर प्राप्त होगा। मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा नियोक्ता को वेतन और भुगतान सिर्फ़ कथित खाते में जमा करने की आवश्यक स्वीकृति दी गयी है।मैं/हम मानते हैं, पुष्टि करते हैं कि बैंक द्वारा निर्धारित ओवरड्राफ्ट सीमा नियोक्ता द्वारा जमा किये गये मासिक पारिश्रमिक में अंतर के अधीन होगी।बैंक अपने स्वतंत्र निर्णय पर खाते के प्रदर्शन के आधार पर या/और वेतन में हुए अंतर के आधार पर किसी भी समय बिना कोई कारण और सूचना दिये ओवर ड्राफ्ट सीमा को कम, बंद या संशोधित कर सकता है।मुझे ओवरड्राफ्ट सीमा में अंतर होने या उसे रोके जाने पर आपत्ति जताने का कोई अधिकार नहीं होगा।मैं/हम समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार बैंक ब्याज और ब्याज कर का भुगतान करूँगे।मैं/हम मानते हैं, पुष्टि करते हैं और स्वीकार करते हैं कि यहाँ दिये गये नियमों व शर्तों के अनुसार तैयार किया गया ओवरड्राफ्ट मेरे आवेदन पर आपके द्वारा जारी की गयी ओवरड्राफ्ट सेवा के रूप में देखा जायेगा और किसी भी समय बकाया राशि देय ऋण मानी जायेगी और मेरे द्वारा बैंक को देय होगी।मैं/हम मानते हैं कि ओवरड्राफ्ट पर लिया जाने वाला ब्याज समय-समय पर आरबीआइ द्वारा सुझाये गये नियमों के अधीन काटा जायेगा और इस प्रकार काटा गया ब्याज मुझे/हमें आपको चुकाना होगा।मैं/हम स्पष्ट रूप से आपको मेरे वेतन बचत खाते में से मासिक राशि काट कर मेरे द्वारा देय ब्याज/शुल्क लेने का अधिकार देते हैं।मैं/हम यह भी स्वीकार करते हैं कि प्रोसेसिंग, निर्धारण और कागज़ी कार्रवाई का शुल्क भी आपके द्वारा इस ओवरड्राफ्ट सेवा के सक्रिय होने की तिथि पर मेरे वेतन बचत खाते से काटा जायेगा।मैं/हम समझते हैं कि बैंक के स्वतंत्र और शुद्ध निर्णय के आधार पर इस शुल्क के आकार और आवधिकता में अंतर हो सकता है।मैं/हम मानते और स्वीकार करते हैं कि ओवरड्राफ्ट सेवा मेरे/हमारे लिये आपके स्वतंत्र निर्णय पर जारी की जायेगी और मैं/हम मानते और स्वीकार करते हैं कि आप किसी भी समय मुझे/हमें सूचित करके ओवरड्राफ्ट सेवा समाप्त कर सकते हैं और वेतन बचत खाता बंद करके मुझसे/हमसे बकाया राशि का दावा कर सकते हैं।उपर्युक्त परिच्छेद के प्रावधानों की सामान्यता को प्रभावित किये बिना, आप निम्नलिखित घटनाएँ होने पर ओवरड्राफ्ट सेवा समाप्त कर सकते हैं (‘‘दोषपूर्ण घटनाएँ’’)

- शेष राशि अपर्याप्त होना: मैं/हम देय मासिक ब्याज/शुल्क/भुगतानों के लिये पर्याप्त रकम खाते में नहीं रख पाते
- वेतन प्राप्त न होना। अगर किसी कारण से पिछला वेतन जमा होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर मासिक पारिश्रमिक/वेतन वेतन बचत खाते में जमा नहीं होता या नियोक्ता आपको मासिक पारिश्रमिक न देने के इरादे की सूचना देता है।
- सामान्य दोष: मैं/हम यहाँ या वेतन खाते से संबंधित किसी अन्य दस्तावेज़ में और/या नियमों व शर्तों के अधीन ओवरड्राफ्ट सेवा से संबंधित दी गयी जिम्मेदारियों और वचनों को पूरा करने से संबंधित कोई उल्लंघन या चूक करते हैं और इस प्रकार के उल्लंघन या चूक और इसमें सुधार के लिये उठाये जाने वाले आवश्यक कदम की सूचना आपको ओर से प्राप्त होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर कोई भी सुधार का कदम नहीं उठाते हैं।
- मैं/हम यहाँ दी गयी नियमों व शर्तों के अधीन सभी नियत तिथियों पर बकाया राशियों को चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं और/या हम अपने एक या अधिक ऋणदाताओं से मेरे/हमारे ऋण के पुनर्नियमन या कार्यक्रम बदलने की बातचीत शुरू करते हैं या मैं/हम मेरे/हमारे एक या कई ऋणदाताओं के हित में कोई सामान्य प्रभार सौंपते हैं।
- नौकरी खोना: मैं/हम अपनी मौजूदा नौकरी से इस्तीफ़ा दे देते हैं या इस्तीफ़ा देने की धमकी देते हैं या ऐसा करने के इरादे की सूचना देते हैं या किसी कारण से नियोक्ता के साथ अपनी नौकरी से बर्खास्त या निलंबित कर दिये जाते हैं या नियोक्ता से इस प्रकार की बर्खास्ती।/निलंबन की सूचना प्राप्त करते हैं
- मुझे/हमें दिवालिया घोषित करने की किसी कानूनी प्रक्रिया की सूचना दी जाती है या इस उद्देश्य से कोई कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है या मेरी/हमारी आस्तियों या संपत्तियों के संपूर्ण या आंशिक भाग के लिये प्राधिकृत प्रभारी, प्रशासनाधिकारी, ट्रस्टी नियुक्त किया जाता है या इसी प्रकार का कोई अधिकारी कस्टोडियन/प्राप्तकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है

चूक की कोई भी घटना होने पर, आप आपके किसी भी अन्य अधिकार को प्रभावित किये बिना मुझे/हमें सूचित करके

- ओवरड्राफ्ट सेवा को समाप्त/कम कर सकते हैं
- मेरे/हमारे वेतन बचत खाते को बंद कर सकते हैं और उसमें शेष राशि का इस्तेमाल निकाली गयी ओवरड्राफ्ट की राशि और मेरे/हमारे द्वारा आपके देय अन्य राशियों के भुगतान के लिये कर सकते हैं।
- वेतन के खाते में जमा राशि अपर्याप्त होने पर ओवरड्राफ्ट सेवा के अंतर्गत मेरे/हमारे द्वारा आपको देय बकाया राशि लेने और समायोजित करने में आपको सक्षम बनाने के लिये मैं/हम वचन देते हैं कि हम आपके द्वारा प्राप्त लिखित मांग सूचना प्राप्त होने की तिथि से (7) सात दिनों के भीतर मांग की पूरी राशि बिना किसी देरी के चुकायेंगे।
- अगर मेरे/हमारे द्वारा शेष राशि नहीं चुकाई जाती है, तो आपको भुगतान प्राप्त किये जाने और/या आपको ओवरड्राफ्ट सेवा की पूरा बकाया राशि प्राप्त हो जाने तकवेतन खाते में 2% प्रति माह की दर से दंड लगाने का अधिकार है
- ओवरड्राफ्ट सेवा में आपके स्वतंत्र निर्णय पर बिना किसी सूचना के बदलाव किया जा सकता है। किसी भी माध्यम से पैसे निकालने से पहले ओवरड्राफ्ट सीमा के पर्याप्त होने की जाँच करना मेरी जिम्मेदारी है।

मैं/हम ओवरड्राफ्ट सेवा के अंतर्गत बकाया सभी राशियों के लिये और सुरक्षा के तौर पर आपके पक्ष में एक दिनांक रहित चेक जारी करूँगे, समझौता उपकरण अधिनियम, 1881 की धारा 20 के तहत जिसे भरने का अशर्त और अपरिवर्तनीय अधिकार आपके पास होगा।मैं/हम बैंक द्वारा भरे गये कथित चेक के जारीकर्ता के रूप में उसी प्रकार जिम्मेदार होंगे, जैसे इस चेक के मेरे/हमारे द्वारा भरे जाने पर होते, और सुनिश्चित करूँगे कि भुगतान के लिये प्रस्तुत किये जाने पर यह चेक स्वीकार किया जाये।ऊपर दिये गये परिच्छेद 5 को प्रभावित किये बिना, आप अपने स्वतंत्र निर्णय पर किसी भी समय आपको आवश्यक लगने पर मेरे/हमारे द्वारा ओवरड्राफ्ट सेवा के लिये सुरक्षा के तौर पर जमा किये गये चेक को भुगतान के लिये प्रस्तुत कर सकते और इससे धनराशि प्राप्त करके ओवरड्राफ्ट सेवा के खाते पर बकाया राशि को समायोजित कर सकते हैं।यह चेक स्वीकार न किये जाने की स्थिति में, बैंक अपने स्वतंत्र निर्णय पर ओवरड्राफ्ट सेवा की बकाया राशि की प्राप्ति के लिये कानूनी कार्रवाई कर सकता है।मैं/हम समझते हैं और स्वीकार करते हैं कि किसी तरह की चूक की स्थिति में बैंक ओवरड्राफ्ट सेवा की बकाया राशि मुझसे लेने के लिये अपने प्राधिकृत एजेंसी/प्रतिनिधि/अधिकारी को नियुक्त कर सकता है।इनमें से किसी को भी प्रभावित किये बिना, चूक होने की स्थिति में यहाँ दिये गये नियमों व शर्तों और विधान, नागरिक कानून, प्रचलन या व्यापारिक उपयोगों के अधीन बैंक के लिये उपलब्ध सभी उपाय संचयी होंगे, वैकल्पिक नहीं और इन सभी का बारी-बारी से या एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।कथित ओवरड्राफ्ट सेवा के अधीन कोई भी राशि बकाया और देय होने के दौरान इन नियमों व शर्तों के प्रावधान जारी रहेंगे और इनके अधीनस्थ सभी अधिकार, शक्तियाँ और उपाय बैंक के पास मेरे सभी पुराने, वर्तमान और भविष्य की देयताओं पर लागू होंगे, जिनमें बाद के लेन-देन से उत्पन्न देयताओं का समावेश होगा, जो पिछली देयताओं के चुकाये जाने के आधार पर घट या बढ़ सकती हैं या कायम रह सकती हैं और मेरी मृत्यु, असमर्थता या मेरे ऊपर की गयी किसी अन्य कार्रवाई का इसपर प्रभाव नहीं पड़ेगा।ओवरड्राफ्ट सेवा से जुड़े नियम व शर्तें सेवा के शुरू किये जाने की तिथि से लागू होंगी और बैंक द्वारा ओवरड्राफ्ट सीमा समाप्त कर दिये जाने तक लागू रहेंगी।आपके द्वारा मुझे आवेदन पत्र पर व्यक्त मेरे पिछले ज्ञात पते पर कोई भी सूचना, मांग या पत्राचार भेजे जा सकते हैं।ऐसी कोई भी सूचना/मांग, पत्राचार फैंक्समाइल द्वारा भेजे जाने पर आपको ट्रांसमिशन रिपोर्ट मिलते ही या निजी तौर पर सौंपे जाने की स्थिति में मेरे पर मिलते ही, या रेजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे जाने पर भेजे जाने के समय से 72 घंटे पूरे होते ही विधिवत प्रस्तुत माने जायेंगे। मेरी मेल आइडी/मोबाइल नंबर पर ई-मेल/एसएमएस द्वारा भेजे जाने की स्थिति में डिलिवरी असफल होने की सूचना न मिलने पर इन्हें विधिवत प्रस्तुत माना जायेगा।

मैं मानता/मानती हूँ कि किसी भी जमानत के दस्तावेज़ समेत इन नियमों व शर्तों से उत्पन्न और इनसे संबंधित सभी विवाद मुंबई के एक सक्षम न्यायालय के न्यायक्षेत्र में ही आयेंगे। इन नियमों व शर्तों से संबंधित सभी खर्च (वकील के खर्च के समेत), भुगतान, व्यय, कर, चुंगियाँ, मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्कऔर इनके अनुसार पूरे किये गये किसी भी दस्तावेज़ के निर्माण, प्रवर्तन, जमानत को भुगाने या भुगाने के प्रयास से संबंधित खर्च मुझे/हमें ही उठाने होंगे।

मैंने/हमने सभी नियमों व शर्तों को पढ़ लिया है और स्पष्ट और अपरिवर्तनीय रूप से इन सभी शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

खाते में कम से कम तीन वेतन जमा होने के बाद आवेदक ओवरड्राफ्ट के लिये योग्य होगा।

ओवरड्राफ्ट के आवेदन की स्थिति सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 7 कार्य दिनों के भीतर भीतर बनाई जायेगी, बशर्ते कि आवेदक ने आवेदक की ऋण योग्यता के मूल्यांकन के लिये बैंक द्वारा मानी गयी सभी जानकारीयों और कोई भी अन्य विवरण दिये हैं।

अधिक जानकारी के लिये, आपको नजदीकी एचडीएफसी बैंक शाखा में जायें



We understand your world

शहर _____ दिनांक _____ आवेदक के हस्ताक्षर _____

कृपया आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट जल्द निर्धारित करने में हमारी सहायता के लिये पूरी जानकारी दें।